

# Psa

## Chapter 33

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
תְּהִלָּהּ : נְאֻמָּה לְיִשְׂרָאֵל בְּיְהוָה זְדִיקִים רַנְּנוּ  
स्तुति योग्य-है ले-सीधों में-यहोवा धर्मी जयजयकार-करो  
H8416 H5000 H3477 H3068 H6662

हे सज्जन लोगों, यहोवा में आनन्द मनाओ! सज्जनो सत पुरुषों, उसकी स्तुति करो!

2  
לֹא : זָמְרוּ עֲשׂוֹר בְּנֶבֶל בְּכִנּוֹר לִיהוָה הַזֶּרֶק  
उसे भजन-गाओ दस-तारों-वाला से-नेबेल से-वीणा को-यहोवा धन्यवाद-दो  
H2167 H6218 H3658 H3068 H3034

वीणा बजाओ और उसकी स्तुति करो! यहोवा के लिए दस तार वाले सांरगी बजाओ।

3  
בְּתִרְעָה : נָזַן הַיְטִיבוּ חָדָשׁ שִׁיר לֹא שִׁירוּ  
से-जयजयकार-के बजाओ अच्छे-से नया गीत उसे गाओ  
H8643 H5059 H3190 H2319 H7891

अब उसके लिये नया गीत गाओ। खुशी की धुन सुन्दरता से बजाओ!

4  
בְּאִמּוּנָה : מְעֵשָׂה וְכָל-יְהוָה רַב־רַב יִשְׂרָאֵל כִּי-  
में-विश्वासयोग्यता कार्य-उसका और-सब यहोवा-का वचन सीधा-है क्योंकि  
H0530 H4639 H3605 H3068 H1697 H3477

परमेश्वर का वचन सत्य है। जो भी वह करता है उसका तुम भरोसा कर सकते हो।

5  
הָאָרֶץ : מְלֵאָה יְהוָה חֶסֶד וּמִשְׁפָּט צְדָקָה אֱהָב  
पृथ्वी भरी-है यहोवा-की कृपा-से और-न्याय धार्मिकता वह-प्रेम-करता-है  
H0776 H4390 H3068 H4941 H6666 H0157

नेकी और निष्पक्षता परमेश्वर को भाती है। यहोवा ने अपने निज करुणा से इस धरती को भर दिया है।

6  
צְבָאָם : כָּל-פִּי וּבְרוּחַ נִעְשָׂו שָׁמַיִם בְּדָבָר יְהוָה  
सेना-उनकी सब मुख-उसके और-से-श्वास बनाए-गए आकाश यहोवा-के से-वचन  
H3605 H6310 H7307 H8064 H3068 H1697

यहोवा ने आदेश दिया और सृष्टि तुरंत अस्तित्व में आई। परमेश्वर के श्वास ने धरती पर हर वस्तु रची।

7  
תְּהוֹמוֹת : בְּאֶצְרוֹת נָתַן הַיָּם מַיִם כִּנּוֹר כִּנּוֹ  
गहराइयों में-भण्डारों वह-रखता-है समुद्र-के पानी-को जैसे-ढेर वह-इकट्ठा-करता-है  
H8415 H0214 H5414 H3220 H4325 H5067 H3664

परमेश्वर ने सागर में एक ही स्थान पर जल समेटा। वह सागर को अपने स्थान पर रखता है।

8  
תְּבִלָּהּ : יֹשְׁבֵי כָל-אֶרֶץ מִיְהוָה יִירָאוּ  
जगत-के निवासी सब थर-थराएँ से-उस पृथ्वी सब से-यहोवा डरे  
H8398 H3427 H3605 H0776 H3605 H3068 H3372

धरती के हर मनुष्य को यहोवा का आदर करना और डरना चाहिए। इस विश्व में जो भी मनुष्य बसे हैं, उनको चाहिए कि वे उससे डरें।

9  
וַיִּעֲמָד : צָהָה הָוָא וַיְהִי אָמַר הָוָא כִּי-  
और-स्थिर-हो-गया आजा-दी वह और-हो-गया कहा वह क्योंकि  
H5975 H6680 H1935 H1961 H0559 H1931

क्योंकि परमेश्वर को केवल बात भर कहनी है, और वह बात तुरंत घट जाती है। यदि वह किसी को रुकने का आदेश दे, तो वह तुरंत थम जाती है।

10 יְהוָה הַפִּיר עֲצַת-גּוֹיִם מַחְשְׁבוֹת עַמִּים: יְהוָה  
 यहोवा व्यर्थ-करता-है सलाह जातियों-की वह-निरस्त-करता-है लोगो-की योजनाएँ  
 H3068 H6331 H6098 H5106 H4284

परमेश्वर चाहे तो सभी सुझाव व्यर्थ करे। वह किसी भी जन के सब कुचक्रों को व्यर्थ कर सकता है।

11 עֲצַת יְהוָה לְעוֹלָם תַּעֲמֹד מַחְשְׁבוֹת לְבָבוֹ לְדָר וְדָר: יְהוָה  
 सलाह यहोवा-की ले-सदा खड़ी-रहती-है योजनाएँ हृदय-उसके-की ले-पीढ़ी और-पीढ़ी  
 H6098 H3068 H5769 H5975 H4284 H1755 H1755

किन्तु यहोवा के उपदेश सदा ही खरे होते हैं। उसकी योजनाएँ पीढ़ी पर पीढ़ी खरी होती हैं।

12 אֲשֶׁר־יְהוָה אֶלְהֵינוּ הָעָם בָּחַר לְנַחֲלָהּ לָּו: אֲשֶׁר־יְהוָה  
 धन्य जाति जिसका यहोवा एलोहीम-उसका लोग उसने-चुना ले-मीरास ले-पीढ़ी अपनी  
 H0835 H3068 H0430 H0977 H5159

धन्य हैं वे मनुष्य जिनका परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर ने उन्हें अपने ही मनुष्य होने को चुना है।

13 מְשֻׁמִּים הַבַּיִט יְהוָה רָאָה אֶת-כָּל-בְּנֵי הָאָדָם: מְשֻׁמִּים  
 से-आकाश देखता-है यहोवा वह-देखता-है को सब आदम-के बेटों  
 H8064 H5027 H3068 H7200 H0853 H0120

यहोवा स्वर्ग से नीचे देखता रहता है। वह सभी लोगों को देखता रहता है।

14 מְמֹכָרִים מִמְּכֹרֶת שְׁבֵתוֹ הַשְּׁמַיִת אֵל כָּל-יִשְׁבֵי הָאָרֶץ: מְמֹכָרִים  
 से-स्थान निवास-अपने-के वह-देखता-है पर सब निवासियों पृथ्वी-के  
 H4349 H3427 H7688 H0413 H3605 H0776 H3427

वह ऊपर ऊँचे पर संस्थापित आसन से धरती पर रहने वाले सब मनुष्यों को देखता रहता है।

15 הַיָּצָר יַחַד לִבָּם הַמְּבִינִים אֶל-כָּל-מַעֲשֵׂיהֶם: הַיָּצָר  
 जो-गढ़ता-है एक-साथ हृदय-उनके जो-समझता-है को सब कार्यों-उनके  
 H3335 H0995 H0413 H3605 H4639

परमेश्वर ने हर किसी का मन रचा है। सो कोई क्या सोच रहा है वह समझता है।

16 אֵין-הַמֶּלֶךְ נוֹשָׁע בְּרַב-חַיִל וְגִבּוֹר לֹא-יִנָּצֵל בְּרַב-כֹּחַ: אֵין-הַמֶּלֶךְ  
 नहीं राजा बचाया-जाता-है से-बहुताई सेना वीर नहीं लड़ाया-जाता-है से-बड़े बल  
 H0369 H4428 H3467 H7230 H2428 H1368 H3808 H5337 H7230

राजा की रक्षा उसके महाबल से नहीं होती है, और कोई सैनिक अपने निज शक्ति से सुरक्षित नहीं रहता।

17 שִׁקָּר הָשָׂר וְהַחֲשׂוּעָה וּבְרַב-חַיִל לֹא-יִמְלֹט: שִׁקָּר  
 व्यर्थ-आशा ले-सुरक्षा और-से-बड़े बल-अपने नहीं वह-छुड़ाएगा  
 H8267 H8668 H7230 H2428 H3808 H4422

युद्ध में सचमुच अश्वबल विजय नहीं देता। सचमुच तुम उनकी शक्ति से बच नहीं सकते।

18 הַגָּה עֵינַי יְהוָה אֶל-יְרֵאָיו לְמַיְחָלִים לְחַסְדּוֹ: הַגָּה  
 देखो आँख यहोवा-की पर-है डरनेवालों-उससे पर-जो-आशा-रखते-हैं में-कृपा-उसकी  
 H2009 H3068 H0413 H3373 H3176

जो जन यहोवा का अनुसरण करते हैं, उन्हें यहोवा देखता है और रखवाली करता है। जो मनुष्य उसकी आराधना करते हैं, उनको उसका महान प्रेम बचाता है।

19 לְהַצִּיל מִמָּוֶת נַפְשָׁם וּלְחַיֵּיתָם בְּרַעֲב: לְהַצִּיל  
 ले-छुड़ाने से-मृत्यु प्राण-उनका और-जीवित-रखने-उन्हें में-अकाल  
 H5337 H4194 H5315 H2421 H7458

उन लोगों को मृत्यु से बचाता है। वे जब भूखे होते तब वह उन्हें शक्ति देता है।

הוא :	וּמְגַנְנֵנוּ	עֲזָרָנוּ	לִיהוָה	חֲכִמָּהּ	נַפְשֵׁנוּ	20
वह-है	और-ढाल-हमारी	सहायक-हमारा	ले-यहोवा	प्रतीक्षा-करता-है	प्राण-हमारा	
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H4043</a>	<a href="#">H5828</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2442</a>	<a href="#">H5315</a>	

इसलिए हम यहोवा की बात जोहेंगे। वह हमारी सहायता और हमारी ढाल है।

בְּחַטָּאתֵינוּ :	קָדְשׁוֹ	בְּשֵׁם	כִּי	לִבֵּנוּ	יִשְׂמַח	בּוֹ	כִּי-	21
हमने-भरोसा-किया	पवित्र-उसके	में-नाम	क्योंकि	हृदय-हमारा	आनन्दित-होगा	में-उस	क्योंकि	
<a href="#">H0982</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H8034</a>			<a href="#">H8055</a>			

परमेश्वर मुझको आनन्दित करता है। मुझे सचमुच उसके पवित्र नाम पर भरोसा है।

לִּי :	יְחַלְנֵנוּ	כְּאִשֶּׁר	עָלֵינוּ	יְהוָה	חַסְדֵּיךָ	יְהוָה	22
में-तुझ	हमने-आशा-रखी	जैसे	पर-हम	यहोवा	कृपा-तेरी	हो	
	<a href="#">H3176</a>			<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H1961</a>	

हे यहोवा, हम सचमुच तेरी आराधना करते हैं! सो तू हम पर अपना महान प्रेम दिखा।